

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक

06.11.2022

twitter-@rampurpolice
@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-

थाना अजीमनगर:- दहेज अधिनियम में वांछित चल रहा अभियुक्त (ससुर) गिरफ्तार-
दिनांक 05-11-2022 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा सलीम पुत्र रियासत
निवासी ग्राम हकीमगंज थाना अजीमनगर जनपद रामपुर को ग्राम हकीमगंज पुलिया
से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अजीमनगर पर पंजीकृत
मु0अ0सं0-250/2022 धारा 498ए/328/506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 में दिनांक
10-10-2022 से वांछित चल रहा था।

थाना अजीमनगर:- ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 03
अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 05-11-2022 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा ग्राम
नवाबगंज रोड पर मजार के सामने आम के बाग से 1-गुलफाम पुत्र कमर खां निवासी
खौद शरीफ थाना स्वार, रामपुर 2-राजकिशोर पुत्र कल्लू सिंह निवासी हरदासपुर
कोठरा थाना अजीमनगर, रामपुर 3-नादिर पुत्र सलीम खां निवासी खौद शरीफ थाना
स्वार, रामपुर को ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर खेलते हुए गिरफ्तार
किया गया। मौके से 52 ताश के पत्ते, अखबार का टुकड़ा, 1840 रूपये नगद, दो
मोमबत्ती अधजली बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पर मु0अ0सं0-
277/2022 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिविल लाइन:-मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देने, छेड़छाड़
के आरोप में एक गिरफ्तार

दिनांक 06.11.2022 को थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर पर पंजीकृत
मु0अ0सं0-525/2022 धारा 323/504/506/341/354ख भादवि में वांछित चल रहे
प्रदीप गुप्ता पुत्र मन्नू गुप्ता निवासी लवी नर्सिंग होम के पीछे थाना सिविल लाइन
जनपद रामपुर को कचहरी चौराहे से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना गंज:-घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देने में एक
अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 03-11-2022 की रात्रि में अभियुक्तगण सोहनलाल आदि 06 नामजद
व कुछ अज्ञात द्वारा लाठी डण्डों व धारदार हथियारों से लेस होकर वादी श्री

राजकुमार उर्फ टिंकू पुत्र रूप किशोर निवासी ग्राम काशीपुर का मझरा थाना गंज, रामपुर के घर में घुसकर वादी व उसके परिवार के साथ गाली गलौज, मारपीट करना तथा बचाने आये वादी के पडोसी भगवतशरण तथा चंद्रपाल के ऊपर धारद्वारा हथियार से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर देना तथा चन्द्रपाल का मौके पर बेहोश होकर गिर जाना तथा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग जाने के सम्बंध में थाना गंज, रामपुर पर मु0अ0सं0-334/22 धारा

147/148/149/452/323/324/504/506/308 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 06-11-2022 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वॉछित चल रहे अभियुक्त सोहनलाल पुत्र होरीलाल निवासी ग्राम महमदपुर थाना पटवाई जनपद रामपुर उम्र 58 वर्ष को नवाब गेट से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। थाना बिलासपुर:-सट्टे की खाईबाडी करते हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06-11-2022 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाडी करते हुए एहसान पुत्र जाकिर अली निवासी ग्राम खजुरिया खुर्द थाना खजुरिया रामपुर को धावनी हसनपुर से ग्राम अफसर नगर को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1020 रूपये, सट्टा पर्चा, 01 पैन बरामद हुआ। इस सम्बंध में थाना बिलासपुर, रामपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।